

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2016—पौष 18, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2016

मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक/बी-11/03/2015/14-2, दिनांक 17.11.2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2015-16 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना क्रमांक 456, दिनांक 17.11.2015 जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला धार, दतिया, बैतूल, भिण्ड, होशंगाबाद, छिन्दवाडा, छतरपुर एवं सिवनी की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये मूल अधिसूचना क्रमांक 456 दिनांक 17.11.2015 के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है। मौसम रबी वर्ष 2015-16 के लिए जिला धार, दतिया, बैतूल, भिण्ड, होशंगाबाद, छिन्दवाडा, छतरपुर एवं सिवनी के पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना रबी 2015-16 हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की
पूरक संशोधित सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों			
धार	धार	धार	57	बगडीतुर्क	-	-	चना	-			
			62	उटावद	-	-	चना	-			
			70	तोरनोद	-	-	चना	-			
			75	खडी	-	-	चना	-			
			81	खेरोद	-	-	चना	-			
			82	तीसगांव	-	-	चना	-			
			90	सादलपुर	-	-	चना	-			
			97	बडछापरा	-	-	चना	-			
			98	नेकपुर	-	-	चना	-			
			104	पिपल्दा	-	-	चना	-			
			106	लेबड	-	-	चना	-			
			107	सेजवाया	-	-	चना	-			
				तिरला	22	भूतीबावडी	गेहूं सिंचित	-	-	-	
					32	भुवांदा	गेहूं सिंचित	-	-	-	
					44	कोठडा	-	-	चना	-	
				सागौर	110	सेजवानी	-	-	चना	-	
					117	मण्डलावदा	-	-	चना	-	
				सरदारपुर	सरदारपुर	43	भेरुपाडा	गेहूं सिंचित	-	-	
						41	उटावा	-	-	चना	-
					अमझेरा	82	बोरखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
	बदनावर	कानवन	90	बाबरडा	-	-	चना	-			
	मनावर	बाकानेर	69	पिपल्यागोटा	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			72	पाठामोटी	गेहूं सिंचित	-	-	-			
	गंधवानी	गंधवानी	13	खेडीबलवारी	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			27	बिल्दा	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			58	सेन्दला	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			59	काबरवा	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			60	देदली	गेहूं सिंचित	-	-	-			
	डही	डही	7	पलासी	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			20	सिलकुआ	गेहूं सिंचित	-	-	-			
दतिया	Datia	Goraghat	1	Gora	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			2	pachokhara	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			3	Badera	गेहूं सिंचित	-	-	-			
			4	Behruka	गेहूं सिंचित	-	-	-			

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			5	Uparai	गेहूं सिंचित	-	-	-
			6	Banoli	गेहूं सिंचित	-	-	-
			7	Dongarpur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	Budheda	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	Gadi	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	Seetapur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	Richhari	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	Serol	गेहूं सिंचित	-	-	-
		Datia	13	Kumhedi	गेहूं सिंचित	-	-	-
			14	Letra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	Semai	गेहूं सिंचित	-	-	-
			16	Sindhvari	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	Jhabiya	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	Richhra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	Datiagird	गेहूं सिंचित	-	-	-
			20	Redabahadurpur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	Bahadurpur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	Bidaniya	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	Dagrai	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	Baajni	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	Nichroli	गेहूं सिंचित	-	-	-
			26	Agora	गेहूं सिंचित	-	-	-
		Rajapur	27	Ganbhari	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	Chituwa	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	Larayta	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	Rajapur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			31	Sersa	गेहूं सिंचित	-	-	-
			32	Lalua	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	Parasari	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	Gujarra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	Tagaa	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	Chirula	गेहूं सिंचित	-	-	-
			37	Karanikhurd	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	Bhagor	गेहूं सिंचित	-	-	-
			39	Durgapur	गेहूं सिंचित	-	-	-
		Udgawa	40	Palothar	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			41	Udgawa	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			42	Noner	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			43	Biloni	गेहूं सिंचित	-	-	-
			44	Khawrawni	गेहूं सिंचित	-	चना	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			45	Rajpur	गेहूं सिंचित	—	चना	राई-सरसों
			46	Sanora	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			47	Garera	गेहूं सिंचित	—	—	—
			48	Nunwaha	गेहूं सिंचित	—	—	—
			49	Khamera	गेहूं सिंचित	—	—	—
			50	Kamrari	गेहूं सिंचित	—	—	—
			51	Banwas	गेहूं सिंचित	—	—	—
			52	Katili	गेहूं सिंचित	—	—	—
			53	Hatlav	गेहूं सिंचित	—	—	—
		Basai	55	Sation	गेहूं सिंचित	—	—	—
			56	Bardhuwa	गेहूं सिंचित	—	—	—
			57	Sankuli	गेहूं सिंचित	—	—	—
			58	Nayakheda	गेहूं सिंचित	—	—	—
			59	Urdana	गेहूं सिंचित	—	—	—
			60	Mudra	गेहूं सिंचित	—	—	—
			61	Makdari	गेहूं सिंचित	—	—	—
			62	Thakurpura	गेहूं सिंचित	—	—	—
			63	Lakhanpur	गेहूं सिंचित	—	—	—
			64	Basai	गेहूं सिंचित	—	—	—
		Imiliya	65	Akola	गेहूं सिंचित	—	—	—
			66	Nayagaon	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			67	Kuretha	गेहूं सिंचित	—	—	—
			68	Nadai	गेहूं सिंचित	—	—	—
			69	Guda	गेहूं सिंचित	—	—	—
			70	Sujed	गेहूं सिंचित	—	—	—
			71	Diswar	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			72	Baswaha	गेहूं सिंचित	—	—	—
			73	Dursada	गेहूं सिंचित	—	—	—
			74	Charwara	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			75	Buhara	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			76	Khiryaghoghu	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			77	Chiroli	गेहूं सिंचित	—	—	—
			78	Radhapur	गेहूं सिंचित	—	—	—
			79	Bhitora	गेहूं सिंचित	—	—	—
			80	Karkhada	गेहूं सिंचित	—	—	—
			81	Beekar	गेहूं सिंचित	—	—	—
			82	Imiliya	गेहूं सिंचित	—	—	—
		Unao	83	Dhawari	गेहूं सिंचित	—	—	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			84	Ikara	गेहूं सिंचित	-	-	-
			85	Pathara	गेहूं सिंचित	-	-	-
			86	Sadwara	गेहूं सिंचित	-	-	-
			87	Daryapur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			88	Sasuti	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			89	Kusouli	गेहूं सिंचित	-	-	-
			90	Dewra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			91	Richhar	गेहूं सिंचित	-	-	-
			92	Simriya	गेहूं सिंचित	-	-	-
			93	Gulmau	गेहूं सिंचित	-	-	-
			94	Kamad	गेहूं सिंचित	-	-	-
			95	Bhadewra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			96	Targuwa	गेहूं सिंचित	-	-	-
			97	Unao	गेहूं सिंचित	-	-	-
	बढौनी	Badoni	1	Badonkala	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			2	Dagrakua	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			3	Banrol	गेहूं सिंचित	-	-	-
			4	Bargain	गेहूं सिंचित	-	-	-
			5	Rwari	गेहूं सिंचित	-	-	-
			6	Erai	गेहूं सिंचित	-	-	-
			7	Bhadumra	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	Sinawal	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	Mahewa	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	Badonikhurd	गेहूं सिंचित	-	चना	राई-सरसों
			11	Murera	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	Govindpur	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	Ramsagar	गेहूं सिंचित	-	-	-
			14	Jigna	गेहूं सिंचित	-	-	-
			15	Jonhar	गेहूं सिंचित	-	-	-
			16	Kurthara	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	Ghughasi	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	Hidora	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	Hinotiya	गेहूं सिंचित	-	-	-
		Bilharikhurd	20	Badgour	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	Sijora	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	Oreena	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			23	Raobugurg	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			24	Bilharikhurd	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			25	Sanai	गेहूं सिंचित	—	—	—
			26	Satari	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			27	Hattai	गेहूं सिंचित	—	—	—
			28	Saliyapamar	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			29	Pathari	गेहूं सिंचित	—	—	—
			30	Janori	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			31	Goghari	गेहूं सिंचित	—	—	—
			32	Chhata	गेहूं सिंचित	—	—	—
			33	Sahdora	गेहूं सिंचित	—	—	—
			34	Lamkana	गेहूं सिंचित	—	—	—
			35	Bhasdakhurd	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			36	Bhasdakala	गेहूं सिंचित	—	चना	—
बैतूल	बैतूल	बैतूल बाजार	80	गुडी	गेहूं सिंचित	—	—	—
		बैतूल-1	54	पिपला	गेहूं सिंचित	—	—	—
	मुलताई	प्रभात पट्टन	77	गाडरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
		मासेद	125	वलनी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			126	मोरण्ड	गेहूं सिंचित	—	—	—
			130	रजापूर रैयत	गेहूं सिंचित	—	—	—
			132	चिखली माल	गेहूं सिंचित	—	—	—
	आमला	आमला	5	आमला	गेहूं सिंचित	—	—	—
			6	बोडखी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			7	हसलपुर	गेहूं सिंचित	—	—	—
		बोरदेही	49	कोठिया रैयत	गेहूं सिंचित	—	—	—
			51	खण्ड पिपरिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			70	काठी	गेहूं सिंचित	—	—	—
	शाहपुर	शाहपुर	2	ढोढरामउ	गेहूं सिंचित	—	—	—
			5	खापा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			8	सालिमेट	गेहूं सिंचित	—	—	—
			9	बानाबेहडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			13	बीजादेही	गेहूं सिंचित	—	—	—
			16	चिखली रैयत	गेहूं सिंचित	—	—	—
			17	ढुमका रैयत	—	—	चना	—
			24	रामपूरमाल	गेहूं सिंचित	—	—	—
			30	गुवाडी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			38	कोटमी	गेहूं सिंचित	—	—	—
	घोडाडोंगरी	घोडाडोंगरी	18	बासपूर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			22	पचामा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			24	खदारा	गेहूं सिंचित	—	—	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			33	दूधवानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	फूलगोहान	गेहूं सिंचित	-	-	-
	आठनेर	आठनेर	44	पानबेहरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
	चिचोली	चिचोली	8	चिरापटला	-	-	चना	-
			12	पादाखेडा	-	-	चना	-
			24	असाडी	-	-	चना	-
			25	देवपुर कोटमी	-	-	चना	-
			34	बोरी	-	-	चना	-
भिण्ड	मौ	देहगांव	61	गिरगांव	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			62	इटायदा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			63	झांकरी	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			64	सिलोहा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			65	नैनोली	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			66	अंगसौली	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			67	देहगांव	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			68	अतरसोहा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			69	छरटा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			70	गुहीसर	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			71	मखोरी	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			72	उझावल	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			73	रसनौल	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
		मौ	74	जमदारा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			75	खेरियाचांदन	-	-	-	राई-सरसों
			76	बरोली	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			77	लुहारपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			78	इटायली	-	-	-	राई-सरसों
			79	धमूरी	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			80	डांगछेकुरी	-	-	-	राई-सरसों
			81	छौंकुरी	-	-	-	राई-सरसों
			82	किटी	-	-	-	राई-सरसों
			83	मौ	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			84	खेरियाजल्लू	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			85	अधियारीखुद	-	-	-	राई-सरसों
			86	अधियारीकलां	-	-	-	राई-सरसों
			87	असोहना	-	-	-	राई-सरसों
			88	बडौरा (मौ)	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			89	मघन	-	-	-	राई-सरसों
			90	गुरियाची	-	-	-	राई-सरसों
			91	सहरोली	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों
			92	रतवा	गेहूं सिंचित	-	-	राई-सरसों

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
	गोरमी	गोरमी	22	खोकीपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			23	नुन्हड	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			24	अशोखर	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			25	अकलोनी	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			26	पूतापपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			27	सुनारपुरा	—	—	—	राई-सरसों
			28	मेहदौली	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			29	मानहड	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			30	सौंधा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			31	लावन	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			32	अरेलेकापुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			33	लालपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			34	कूपे का पुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			35	हरीक्षा	—	—	—	राई-सरसों
			36	श्यामपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			37	चपारा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			38	मानपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
			39	डोंडरी	—	—	—	राई-सरसों
			40	जैतपुरा	—	—	—	राई-सरसों
	भिण्ड	भिण्ड	51	जामपुरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
	लहार	असवार	28	करियावली	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों विलोपित की जाती है ।
	रौन	रौन	17	पचोखरा	गेहूं सिंचित	—	—	राई-सरसों
होशंगाबाद	सिवनीमालवा	सतवासा	82	सोताचिखली	गेहूं सिंचित	—	—	—
	पिपरिया	पिपरिया	17	खिडिया	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			19	सुरेलाकला	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			27	पारखी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			28	कहन्वार	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			30	सिंघौडी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
		तरौनकला	38	तरौनकलां	गेहूं सिंचित	—	चना	—
छिन्दवाडा	छिन्दवाडा	छिन्दवाडा-2	16	सारसवाडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
		छिन्दवाडा-3	18	पखडिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			21	सोनाखार	गेहूं सिंचित	—	—	—
			50	रामगढी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			53	उमरिया ईसरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			54	रंगीन खापा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			55	पुलपुलडोह	गेहूं सिंचित	—	—	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			56	झांझरिया खूटिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			57	धमनिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			58	शहपूरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			59	सुसरई	गेहूं सिंचित	-	-	-
			60	पिनडरई	गेहूं सिंचित	-	-	-
			62	मालनवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			63	सोनपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			64	बिजेपानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			65	कोटलबरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			66	थावरीकला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			67	कूहिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			68	भाजीपानीकला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			69	खापाकला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			70	उमरहर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			72	चारगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			73	साख	गेहूं सिंचित	-	-	-
			74	उभेगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			75	गोंदरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
	तामिया	देलारखारी	1	सावरवानी	-	-	चना	-
			2	झिरपा	-	-	चना	-
			3	माहूलझिर	-	-	चना	-
			4	बन्धीबोदल कछार	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			5	अणहोनी	-	-	चना	-
			6	जमुनिया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			7	बम्होरीखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			8	चावलपानी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			9	खापासानी	-	-	चना	-
			10	मानेगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	खापाखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	कुर्सीढाना	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	जामुनडोंगा	गेहूं सिंचित	-	-	-
	परासिया	सिरगोरा	17	लोहारी बांदरी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			18	देवरी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			23	छिन्दा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	सिरगोरा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			26	मण्डला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	सावलाढाना	गेहूं सिंचित	-	-	-
			28	बागबर्धिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			29	जमुनिया पठान	गेहूं सिंचित	-	-	-
			30	उरधन	गेहूं सिंचित	-	-	-
			31	तुमडी	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			32	झुरै माल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	तेन्दूखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			34	पलटवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			35	हरनभटा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			36	पिनडरई	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			37	ढाला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			50	सहपानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			51	खेरी चैतू	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			52	फुटेरा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	जुन्नारदेव	जुन्नारदेव	44	बिलावर कलॉ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			48	रिछेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			49	केवलारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			90	घुटटी	गेहूं सिंचित	-	-	-
		नवेगाँव	58	मनकूघाटी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			59	नवेगाँव कलॉ	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			64	चिखलार	गेहूं सिंचित	-	-	-
			68	घानाउमरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			69	बिन्दरई	गेहूं सिंचित	-	-	-
			70	ढाकरवाडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			71	सातगवारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			73	खिडकी कनेरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			74	बेलगाँव माल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			75	जम्बाकिराडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			77	भतोडिया खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			78	कटकुही	गेहूं सिंचित	-	-	-
			79	मोहगाँव किसन	गेहूं सिंचित	-	-	-
	अमरवाडा	अमरवाडा-1	16	हिवरासानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			17	चिखली मुकासा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	कुटवारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			42	अकलमा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			43	खिरेटी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			44	खामी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	-	-
			45	हिरी मुकासा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			50	करबडोल	गेहूं सिंचित	-	-	-
		अमरवाडा-2	4	हिरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			10	कहुआ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			11	साजवा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	पुरतला	गेहूं सिंचित	-	-	-
		पौनार	51	कोडरा	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			52	सेजा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			53	बोरी माल	गेहूं सिंचित	—	—	—
			54	लखनवारा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			55	दुलारा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			56	बन्धानी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			57	जुंगावाडा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—
			58	भाजीपानी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	—
			59	बारहहीरा माल	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			62	धसनवाडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			63	पौनार	गेहूं सिंचित	—	—	—
			64	छुआदेही	गेहूं सिंचित	—	—	—
			65	छुई	गेहूं सिंचित	—	—	—
			66	चन्दनगांव	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
		सिंगोडी	23	नन्दौरी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			24	कोल्हिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			25	मनदानगढ	गेहूं सिंचित	—	—	—
			26	लछुआ	गेहूं सिंचित	—	—	—
			27	राहीबाडा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			28	बाबई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			30	बडेगांव	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			31	बाका मुकासा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			32	सिंगोडी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			33	रजोला	गेहूं सिंचित	—	—	—
			34	खकरा चारई	गेहूं सिंचित	—	—	—
			35	गुरैया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			36	खामीहिरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			37	चिमौआ	गेहूं सिंचित	—	—	—
			39	तेनदनी माल	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	—	—
			40	मानेगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			41	बांदरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
	चौरई	चौरई	1	हिवरखेडी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			12	बामहनवाडा	गेहूं सिंचित	—	चना	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
		कपुर्दा	5	रामगढ	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			6	मडई	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			7	जमुनिया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			8	गोपालपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			9	आमाबोह	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			19	कुण्डा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			20	हथनी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			21	पिपरिया मानसिंग	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			22	बिंझावाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	सलखनी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			24	माचीवाडा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			25	खिरखिरी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			26	कपुर्दा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			27	घोरावाडी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			28	सिमरिया कलां	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			29	फुटेरा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			30	समसवाडा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			31	खैरी खुर्द	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			32	डुगरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			33	सीतापार	गेहूं सिंचित	-	चना	-
	सौंसर	सौंसर	22	मराम	गेहूं सिंचित	-	-	-
		लोधीखेडा	54	सायखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			55	एलकापार	गेहूं सिंचित	-	-	-
	पाण्डुर्णा	पाण्डुर्णा	41	चिकनी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			43	पेनडोनी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			52	धावडी खापा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			54	कलमगांव	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			56	बनगांव	गेहूं सिंचित	-	-	-
			57	जाटलपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			59	राजोरा कलां	गेहूं सिंचित	-	-	-
			68	राजना	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			69	टेमनी साहनी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			71	घोघरी साहनी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			72	चिचोलीबड	गेहूं सिंचित	-	-	-
	बिछुआ	बिछुआ	20	कपूरखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			27	गोनी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			38	मोया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			40	थोटा माल	गेहूं सिंचित	-	-	-
			42	पाथरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			43	खमरिया माल	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
		खमारपानी	11	चन्दिकापुर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			12	घोराड	गेहूं सिंचित	—	—	—
			13	घनेगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			17	घाट कामठा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			18	खमारपानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			19	गढेवानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			47	पुलपुलडोह	गेहूं सिंचित	—	—	—
			48	दूधगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			49	देवरी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			50	थुयेपानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			51	कुण्डई	गेहूं सिंचित	—	—	—
	उमरेठ	मोरडोंगरी	1	कोठार	गेहूं सिंचित	—	—	—
			2	खारापिण्डरई उर्फ छाबडी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			3	सिनदरई गुरैयाथर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			4	मैंढकी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			5	साजवां	गेहूं सिंचित	—	—	—
			6	दबक	गेहूं सिंचित	—	—	—
			7	सेतपरास	गेहूं सिंचित	—	—	—
			24	मानकादेही कलों	गेहूं सिंचित	—	—	—
			25	चारगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			26	चान्दामेटाकलों	गेहूं सिंचित	—	—	—
			27	निमकूही	गेहूं सिंचित	—	—	—
			28	खजरी अनतू	गेहूं सिंचित	—	—	—
			29	इटावा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			30	मोरडोंगरी खुर्द	गेहूं सिंचित	—	—	—
			31	मोरडोंगरी कलां	गेहूं सिंचित	—	—	—
			32	मानडई माल	गेहूं सिंचित	—	—	—
			33	पटपडा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			34	अपतरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			35	ताल पिपरिया	गेहूं सिंचित	—	—	—
			36	तिगाई	गेहूं सिंचित	—	—	—
			37	परसोली	गेहूं सिंचित	—	—	—
			38	कन्हरगांव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			39	मूसादेही	गेहूं सिंचित	—	—	—
	मोहखेड	सांवरी	2	धगडिया माल	गेहूं सिंचित	—	—	—
		इकल बिहरी	43	शिकारपुर	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			64	मोहखेड	गेहूं सिंचित	—	—	—
			67	गोरखपुर	गेहूं सिंचित	—	—	—
			72	जाखावाडी	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			73	ग्वारा	गेहूं सिंचित	—	—	—

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
	हरई	बटकाखापा	4	गांगई	-	गेहूं असिंचित	चना	-
			5	अतरिया	-	-	चना	-
			8	भोईपार	गेहूं सिंचित	-	-	-
			9	चुरी साजवा	-	गेहूं असिंचित	-	-
			11	बटकाखापा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			12	आंचकुण्ड	गेहूं सिंचित	-	-	-
			13	कांका	गेहूं सिंचित	-	-	-
	हरई		35	रातोमाटी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			36	बुढेना	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			37	छिन्दा	-	-	चना	-
			39	घोघरी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			40	मैहदा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			41	मोहरिया	-	-	चना	-
			42	नवलपुर	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			43	तेन्दूखेडा	-	-	चना	-
			45	भेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			47	अमारी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			48	हरई	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			52	सलैया बुलाकी	गेहूं सिंचित	-	-	-
	धनौरा		17	कोठिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	मनकवाडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			20	धनौरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			21	भुमका	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	जिलहेरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	भालपानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	खिरदा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			25	अण्डोल	गेहूं सिंचित	-	-	-
	हडाई		61	बसुरिया खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			63	सेजवाडा कलौ	गेहूं सिंचित	-	-	-
			64	हडाई	-	-	चना	-
			66	जमुनिया	-	गेहूं असिंचित	-	-
	चान्द	चौद	17	चिखली खुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			18	हरनाखेडी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			19	खैरी रानी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			20	बाडीवाडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			22	कौआखेडा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			23	मोघर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			24	चौद	गेहूं सिंचित	-	-	-

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			25	बम्हनी दूरा	गेहूं सिंचित	--	--	--
			26	नौलाझिर	गेहूं सिंचित	--	--	--
			27	परसगांव सर्रा	गेहूं सिंचित	--	--	--
			28	नीलकंठी खुर्द	गेहूं सिंचित	--	--	--
			29	निशान जानोजी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			30	नवेगाँव गौंड	गेहूं सिंचित	--	--	--
			31	सालई छिन्दी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			32	सटोटी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			33	दिलावर मोहगाँव	गेहूं सिंचित	--	--	--
			34	गुमागाँव दावाझिर	गेहूं सिंचित	--	--	--
			35	बतरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			36	तितरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			37	बादगाँव	गेहूं सिंचित	--	--	--
			38	लालगाँव	गेहूं सिंचित	--	--	--
			39	मेघदौन	गेहूं सिंचित	--	--	--
			40	रमपुरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			41	पौनियां	गेहूं सिंचित	--	--	--
			47	पिपरिया खाती	गेहूं सिंचित	--	--	--
			48	टाप	गेहूं सिंचित	--	--	--
			49	बाँसखेडा	गेहूं सिंचित	--	--	--
		पांजरा	1	पालहरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			2	बाँका नागनपुर	गेहूं सिंचित	--	--	--
			3	पालादौन	गेहूं सिंचित	--	--	--
			4	खूट पिपरिया	गेहूं सिंचित	--	--	--
			5	बरलीपार	गेहूं सिंचित	--	--	--
			6	मोरखा	गेहूं सिंचित	--	--	--
			7	सीदप	गेहूं सिंचित	--	--	--
			8	औरिया	गेहूं सिंचित	--	--	--
			9	हिरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			10	सॉख	गेहूं सिंचित	--	--	--
			11	देवरी माल	गेहूं सिंचित	--	--	--
			12	आमाझिरी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			13	राजलवाडी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			14	परसोली	गेहूं सिंचित	--	--	--
			15	झिरिया	गेहूं सिंचित	--	--	--
			16	पांजरा	गेहूं सिंचित	--	--	--
			21	लोनी कला।	गेहूं सिंचित	--	--	--
			42	पंचगाँव	गेहूं सिंचित	--	--	--
			43	बम्हनी लाला	गेहूं सिंचित	--	--	--
			44	सिंघोडी	गेहूं सिंचित	--	--	--
			45	सिरस	गेहूं सिंचित	--	--	--

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			46	साजपानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			51	हलाल खुर्द	गेहूं सिंचित	—	—	—
	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा-2	1	रोहनाकलां	गेहूं सिंचित	—	—	—
जिला छिन्दवाड़ा अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना में प्रकाशित हल्कों के सामने प्रदर्शित फसलों को निरस्त किया जाता है ।								
छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा-2	2	भैसादण्ड	गेहूं सिंचित	—	—	—
	तामिया	तामिया	6	जमुनिया	गेहूं सिंचित	—	चना	—
			8	चावलपानी	—	—	चना	—
			9	खापासानी	—	—	चना	—
			10	मानेगाँव	गेहूं सिंचित	—	—	—
			17	खापा खुर्द	गेहूं सिंचित	—	—	—
			18	देलाखारी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			21	कुर्सीढाना	गेहूं सिंचित	—	—	—
			22	जामुनडोंगा	गेहूं सिंचित	—	—	—
	परासिया	परासिया	5	चिखली कलौं	—	—	—	—
			38	हरई	गेहूं सिंचित	—	—	—
			41	भम्होडी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			43	भाजीपानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			44	इकलहरा	गेहूं सिंचित	—	—	—
			47	घोघरी रैयत	गेहूं सिंचित	—	—	—
			49	खिरसाडोह	गेहूं सिंचित	—	—	—
	अमरवाड़ा	अमरवाड़ा-1	44	खामी	—	—	चना	—
	सौंसर	सौंसर	24	मुंगनापार	गेहूं सिंचित	—	—	—
			26	सावंगी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			27	छत्रापुर	गेहूं सिंचित	—	—	—
	पाण्डुर्णा	पाण्डुर्णा	56	बनगाव	—	—	चना	—
			57	जाटलपुर	—	—	चना	—
			59	राजौरा कलौं	—	—	चना	—
			69	टेमनी सहनी	—	—	चना	—
			71	घोघरी साहनी	—	—	चना	—
			72	चिचोली बड़	—	—	चना	—
	बिछुआ	बिछुआ	24	आमाकूही	गेहूं सिंचित	—	—	—
			29	लोहार बतरी	गेहूं सिंचित	—	—	—
			45	सुरैवानी	गेहूं सिंचित	—	—	—
	मोहखेड़	सांवरी	12	मैनीखापा	गेहूं सिंचित	—	—	—
छतरपुर	घुवारा	भगवां	21	भोयरा	गेहूं सिंचित			
			22	पनवारी	गेहूं सिंचित			
			23	सिमिरया	गेहूं सिंचित			
			24	विश्वा	गेहूं सिंचित			

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
			25	कुडेला	गेहूं सिंचित			
			26	सोरखी	गेहूं सिंचित			
			27	सरकना	गेहूं सिंचित			
			28	बन्न	गेहूं सिंचित			
			29	हरदौलपट्टी	गेहूं सिंचित			
			30	पुरा पट्टी	गेहूं सिंचित			
			31	भगवा	गेहूं सिंचित			
			32	मढीखेरा	गेहूं सिंचित			
			33	गोरखपुरा	गेहूं सिंचित			
			34	झिगरी	गेहूं सिंचित			
	महाराजपुर	गढी मलहरा	1	उजरा	गेहूं सिंचित		चना	राई-सरसों
			2	कुराहा	गेहूं सिंचित		चना	
			3	गौर	गेहूं सिंचित		चना	
			4	नुना	गेहूं सिंचित		चना	
			5	गुरसारी	गेहूं सिंचित		चना	
			6	सिदुरखी	गेहूं सिंचित		चना	
			7	पडवाहा	गेहूं सिंचित		चना	
			8	मलहरा	गेहूं सिंचित		चना	
			9	गौरारी	गेहूं सिंचित		चना	
			10	बेदार	गेहूं सिंचित		चना	
			11	उर्दमठ	गेहूं सिंचित		चना	राई-सरसों
			12	मलका	गेहूं सिंचित		चना	
			13	खिरी	गेहूं सिंचित		चना	
			14	ढिगपुरा	गेहूं सिंचित			

मौसम	रबी	वर्ष	2015-16	100 हैक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसों
							चना	
			15	गुदारा	गेहूँ सिंचित		चना	
सिवनी	घंसौर	कहानी	31	कहानी	गेहूँ सिंचित	—	—	—